

29th June, 2023

To,
Manager
Dept. of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,

Fax: 022- 22723121/2037/2039/2041 corp.relations@bseindia.com

Scrip Code: 532906

Mumbai - 400 001

To,
Manager
Dept. of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,

Bandra, Mumbai - 400 051 Fax: 022-26598237/38 26598347/48

cmlist@nse.co.in Scrip Code : MAANALU

Subject: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of the newspaper publication of the Notice to the members of the Company regarding 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held over Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on July 19, 2023, Wednesday, at 11.00 A.M. along with intimation of Book Closure, E-Voting and Completion of Dispatch of 20th AGM notice and Annual Reports to the shareholders.

Please find enclosed the Newspaper Advertisement in compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in English Daily Newspaper ("Financial Express") and Hindi Daily Newspaper ("Jansatta"). You are requested to kindly take this information on record and disseminate the same

Thanking you.

Yours faithfully For Maan Aluminium Limited

SANDEEP
KUMAR
AGARWAL

Sandeep (Company Secretary)

FINANCIAL EXPRESS

VALUE INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 14KM Stone, Aurangabad- Paithan Road, Village Chittegaon, Taluka Paithan, Aurangabad- 431 005 CIN No. L99999MH1988PLC046445 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER /HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2021 (Amount in Millions Six Months **Ouarter Ended** Ouarter ended ended **Particulars** 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 Unaudited Unaudited Unaudited 1. Total Income from Operations 1.47 1.75 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, -103.45 -556.53 -298.82 Exceptional and/or Extraordinary items) 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax -103.45 -556.53 -298.82 (after Exceptional and/or Extraordinary items) -103.45 -556.53 -298.82 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) -556.53 -103.45 -298.82 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)! 391.86 391.86 6. Equity Share Capital 391.86 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 8. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)--2.64-14.20 -7.63 1. Basic:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Quarterly Financial Results, including detailed notes to such financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.valueind.in).

-2.64

For VALUE INDUSTRIES LIMITED

-14.20

Place: New Delhi Date: June 8, 2023

2. Diluted:

Abhijit Guhathakurta (Resolution Professional)

-7.63

JK AGRI GENETICS LTD.

(CIN: L01400WB2000PLC091286) Regd. Office: 7, Council House Street, Kolkata -700 001 Secretarial Office: Gulab Bhawan (Rear Wing), 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002; Tel.: +91 33 22487084/6181, 11 68201265/1891 Website: www.jkagri.com, Email: jkaglshareholder@jkmail.com

INFORMATION REGARDING 23RD ANNUAL GENERAL MEETING

The 23rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of JK Agri Genetics Limited will be held on Friday, the 28th of July 2023 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable Circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23, will be sent only through electronic mode to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participants (DPs). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.jkagri.com and BSE Ltd. at www.bseindia.com and Central Depository Services (India) Ltd. at www.evotingindia.com.

The Company is providing remote e-Voting facility ("remote e-Voting") to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-Voting system during the AGM ("e-Voting"). Detailed procedure for remote e-Voting / e-Voting and participation in AGM through VC/OAVM by the Members has been provided in the Notice of the AGM which will

Manner of registration/updation of E-mail addresses for receiving Annual Report and AGM Notice electronically:

(a) For Shares held in Demat form: Please register/update E-mail addresses with your respective DPs. (b) For Shares held in physical form: Please provide Form ISR-1, Form ISR-2 and

Form No. SH-13 (Nomination Form) duly filled as per the instructions stated therein along with the supporting documents to the Company's RTA, Alankit Assignments Limited at Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or E-mail: rta@alankit.com. Said Forms are available on the website of the Company at https://jkagri.com/investor-relations/investor-services/. Members are requested to carefully read all the Notes set out in Notice of the AGM including

instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-Voting/ e-Voting during the AGM. Please write to the Company at its secretarial office for any assistance.

Place: New Delhi

Date: 28th June 2023

for JK Agri Genetics Ltd. Anoop Singh Gusain Company Secretary

PUBLIC NOTICE

ENERGYEDGE POWER TRADING PRIVATE LIMITED 114, Block B, Surabhi Apartments, 1712, Bilekahalli, Banerghatta Road Bannerghatta Road Bengaluru South Bengaluru Karnataka India 560076

Notice under sub-section (2) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 The person above-named, a company incorporated under the Companies Act, 2013 (the applicant has made an application under sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 for grant of Category V License for Inter State Trading in Electricity in geographical region of India before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi. The necessary details in respect of the applicant

(i) Share Capital: INR 2,50,00,000/-Authorised Share Capital INR 2,10,00,000/ Issued Shared Capital Subscribed Share Capital INR 2,10,00,000/ Paid Up Share Capital INR 2,10,00,000/

(ii) Shareholding Pattern (Details of Shareholders holding 5% or more):

Name of Shareholder	Citizenship	Residential Status	No. of Shares	Share Holding % age
Pratyush Shukla	Indian	Resident	9,45,000	45%
VikasKumar	Indian	Resident	11,55,000	55%
(iii) Financial and	d Technical Stren	gth - Energyedge Power	Trading Private Lin	nited has adequate

net worth and liquidity to carry out the business of trading. Energyedge Power Trading Private Limited has full time directors having expertise in Power Markets, Regulations, Commercial Contracts and Finance. iv) Management profile of the applicant including details of past experience of the applicant and

or the persons on the management of the applicant in generation, transmission, distribution and trading of electricity or similar activity - Mr. Vikas Kumar, Director, Energyedge Power Trading Private Limited has worked in domain of Business Development, Energy Operation, Business Consulting, Strategy & Execution, Power Trading, Holistic Energy Solutions and Energy Derivatives Trading,. He has rendered solutions in areas of Tender documentation for Case I and Case II Bidding, Drafting of Retail Electricity Trading contracts, Turnkey Renewable Energy transaction services, drafting of innovative Holistic Energy Contracts, Performance Contracting He has completed B.E. from Bharati Vidyapeeth University, Pune. He carries with him more than 12.5 years of experience in the domain. v) Volume of electricity intended to be traded during the first year after grant of license and

future plans of the applicant to expand volume of trading - Energyedge Power Trading Private Limited aims to commence interstate trading operations in India by tying up contracts to the extent of 500 MUs during its first year of operations. The quantum of power trade is expected to increase at 50% per annum over the subsequent 2 years. (vi) Geographical areas within which the applicant will undertake trading in electricity - All India

(vii) Net worth as on 31st March of three consecutive years immediately preceding the year of application or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance

and the areas as may be permitted under the provisions of The Electricity Act 2003 and relevant

sheet accompanying the application -Amount in INR- 2,11,25,500/-(viii) Year-wise current ratio and liquidity ratio of the applicant for three years preceding the year in which the application is made, or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance sheet accompanying the application - Current Ratio = 43.80:1

(ix) (a) Energyedge Power Trading Private Limited is authorized to undertake trading in electricity under the MOA in the main object.

(b) The said clause reads as "3. To establish and carry on the businesses of generators, suppliers, processors, accumulators, distributors, traders of and dealers in, and act as trader and Power Exchange Member in the sale and purchase of electricity within or across the geographical boundary ofIndia and electrical energy in any form and by any process and with any fuel, derivatives including but not limited to renewable energy certificates, carbon credits, energy conservation certificates or by products connected with or related to the generation

Details of cases, if any, where the applicant or any of his associates, or partner, or promoters, or Directors has been declared insolvent and has not been discharged - None

(xi) Details of cases, if any, in which the Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has been convicted of an offence involving moral turpitude, fraud or any economic offence during the previous three years preceding the year of making the application and the year of making the applicant and the date of release of the above person from imprisonment. if any, consequent to such conviction - None

refused license, and if so, the detailed particular of the application, date of making application, date of order refusing license and reasons for such refusal- NO

(xiii) Whether the Applicant has been granted a license for transmission of electricity - NO (xiv) Whether an order cancelling the license of the Applicant, or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors has been passed by the Commission - NO

(xv) Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors was ever found guilty in any proceedings for contravention non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made there under or an order made by the Appropriate Commission, during the year of making the application or five years immediately preceding

inspection by any person with Mr. Vikas Kumar, 114, Block B, Surabhi Apartments, 17/2, Bilekahalli, Banerghatta Road Bannerghatta Road Bengaluru South Bengaluru. Telephone +91-8860086327, E-mail: eeptpltd@gmail.com;

The application made, and other documents filed before the Commission have been posted

Objections or suggestions, if any, on the application made before the Commission may be sent to the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 3rd & 4th Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110001; E-mail: secy@cercind.gov.in within 30 days of publication of this notice, with a copy to the applicant.

No objections or suggestions shall be considered by the Commission if received after expiry of 30 days of publication of this notice. VikasKumar

CIN: L51109WB1983PLC035969 Regd. Office: 20-B, Abdul Hamid Street,4th Floor, Kolkata-700 069, Phone: 033-22483203 E-mail: eita.cal@eitain.com, Website: www.eitain.com

EITA INDIA LIMITED

Notice is hereby given that 41st Annual General Meeting (AGM) of the Members of EITA India Limited will be held on Friday, 21st July, 2023 at 1.00 P.M. at the registered office of the Company at 20B, Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata - 700 069 to transact the Businesses as set out in the Notice.

In compliance with relevant Circulars, Notice of Annual General Meeting along with instructions for remote e-voting and voting at the AGM, Attendance Slip, Proxy Form & Annual Report for the financial year ended 31st March, 2023 has been sent to Members through requisite mode. The said documents are also available on the Company website at www.eitain.com & CDSL website at www.evotingindia.com.

In this regard, Members whose Email Ids for communication are not registered with the Company /RTA/DP are requested to update the same by following instructions set out below:

remote e-voting period begins on 18th July, 2023 at 9.00 A.M. (IST) and ends on 20th July, 2023 at 5.00 P.M. (IST). During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialization form, as on the cut-off date 14th July, 2023, may cast their vote electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email ID and any person who acquired shares and became member after dispatch of Notice of 41st. AGM and holds shares as on the cut-off date, may obtain login ID and password for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at nichetechpl@nichetechpl.com. Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting can exercise their right at the venue of the meeting through ballot paper. However, in case vote already casted through remote e-voting shall prevail.

(CDSL), Central Depository Services (India) Ltd., A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800225533 or contact the Company at eita.cal@eitain.com/blsharma@eitain.com or over phone at 033-22483203. By order of the Board

For any queries regarding e-voting, members may write to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager

For EITA India Limited Sd/-Managing Director

Place: Kolkata Date: 28.06.2023

SWaraJ

SWARAJ ENGINES LTD.

CIN: L50210PB1985PLC006473

Regd. Office: Phase IV, Industrial Area, S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 160055, Tel: 0172-2271620, Fax: 0172-2272731 E-mail: selinvestor@swarajenterprise.com Website: www.swarajenterprise.com

INFORMATION REGARDING 37[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS AND NOTICE OF BOOK CLOSURE The shareholders may please note that the 37th Annual General Meeting

("AGM") of Swaraj Engines Limited ("the Company") will be held on Friday, 28th July, 2023 at 2:00 P.M., through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the 37th AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 2/2022 and 10/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13" January, 2021, 14" December, 2021, 5" May, 2022 and 28" December, 2022 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of the 37th AGM, procedure and instructions for e-voting, and Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company Depository Participant(s). The Notice of the 37" AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website at www.swarajenterprise.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

The Company will provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and evoting at the AGM. The instructions on the process of remote e-voting before the AGM / e-voting during the AGM, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through remote evoting / e-voting, will be provided as part of the Notice of the 37" AGM.

The shareholders may note that the Board of Directors at their meeting held on 27th April, 2023 has recommended a dividend of Rs. 92.00 per share. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and share transfer books will remain closed from 8th July, 2023 to 14th July, 2023 (both days inclusive).

The dividend, subject to the approval of the Members, will be paid on or after 29" July, 2023 electronically through various online transfer modes to the shareholders who have updated their bank account details. To avoid delay in receiving the dividend, the shareholders are requested to update their complete bank details with their Depositories (where shares are held in dematerialised mode) and with the Company's Registrar and Transfer Agent (where shares are held in physical mode). In case, the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by the electronic mode due to non-availability of the details of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant to such shareholder to their registered address by post.

The Shareholders who wish to register their e-mail address and/or update bank account mandate may follow the below instructions:

A. For shares held in electronic form: Register/update the details in your demat account, as per the process advised by your Depository Participant (DP);

B. For shares held in physical form: Register/update the details in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agent of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited (MCS). Pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655_dated_3" November, 2021, the Company has sent the letters to the shareholders holding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios. The Shareholders can also access the relevant forms on the Company's website at https://swarajenterprise.com/lmpNot.

The shareholders may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source ("TDS") at the time of making payment of the dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, the shareholders are requested to submit the requisite documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 at selinvestor@swarajenterprise.com. The relevant details in this regard will be available in the Notice of the 37" AGM.

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

Place: S.A.S. Nagar (Mohali)

Date: 28th June, 2023

Director

For SWARAJ ENGINES LIMITED Sd/-

> (Rajesh K. Kapila) Company Secretary M.No.: ACS-9936

Place: Mumbai

Date: 29th June, 2023

यूको बैंक 🚱 UCO BANK

Head Office-II, Department of Information Technology 3 & 4, DD Block, Sector - 1, Salt Lake, Kolkata-700064 NOTICE INVITING TENDER

UCO Bank invites Request for Proposal (RFP) for Procurement of Cyber Security Tools to Enhance Bank's Cyber Security Resilience through GeM portal. GeM Bid No. GEM/2023/B/3624947 dated 28.06.2023.

For any details, please refer to https://www.gem.gov.in & https://www.ucobank.com

(Deputy General Manager) Department of Information Technology Date: 29.06.2023

VALUE INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 14KM Stone, Aurangabad-Paithan Road, Village Chittegaon, Taluka Paithan, Aurangabad- 431 005 CIN No. L99999MH1988PLC046445

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2021

Company /RTA/DP are requested to update the same by following instructions set out				(Amo	ount in Millions)
below: a) Members holding share in demat mode are requested to update their email id, Mobile Nos. Bank Account details and other details with the relevant DPs.	SI.	Particulars	Quarter Ended 31/12/2021	Nine month ended 31/12/2021	Quarter ended 31/12/2020
b) Members holding share in physical mode are requested to send a request letter along	X P	11	Unaudited	Unaudited	Unaudited
with the Form ISR 1 mentioning name, folio no., mobile no., email address, number of	1.	Total Income from Operations	0.03	1.50	1.59
shares, held & complete postal address along with scanned copy of Share Certificate	2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-105.64	-662.17	-888.03
(both sides), self-attested scanned copy of PAN Card, self-attested scanned copy of Address proof (Aadhaar Card/Passport/Voter ID/Bank Passbook Particulars/Driving	3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-105.64	-662.17	-888.03
license/Electricity Bill/Telephone Bill) in support of the postal addresses of the Members as registered against their shareholdings, to the Company's RTA, Niche Technologies Pvt.	4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-105.64	-662.17	-888.03
Ltd. on their Email at nichetechpl@nichetechpl.com or Company at eita.cal@eitain.com Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and regulation 42 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015,	5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-105.64	-662.17	-888.03
the share transfer books and Register of Members shall remain closed from 15th July,	6.	Equity Share Capital	391.86	391.86	391.86
2023 to 21st July, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company. The business at the AGM may be transacted through voting by electronic means. The	7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
remote e-voting period begins on 18th July, 2023 at 9.00 A.M. (IST) and ends on 20th July,	8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-	year.	500-00-00-	2000000

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Quarterly Financial Results, including detailed notes to such financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.valueind.com)

-2.70

-2.70

-16.90

-16.90

-22.66

-22.66

(Resolution Professional)

(Amount in Millions)

For VALUE INDUSTRIES LIMITED Place: New Delhi Abhijit Guhathakurta

VALUE INDUSTRIES LIMITED

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2021.

Registered Office: 14KM Stone, Aurangabad-Paithan Road, Village Chittegaon, Taluka Paithan, Aurangabad- 431 005 CIN No. L99999MH1988PLC046445

SI. No	Particulars	Quarter Ended 30/06/2021	Quarter Ended 30/06/2020	Year Ended 31/03/2021
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	2.89	+3	11.05
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-453.07	-288.55	-2373.76
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-453.07	-288.55	-2373.76
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-453.07	-288.55	-2373.76
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-453.07	-288.55	-2373.76
6.	Equity Share Capital	391.86	391.86	391.86
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			-9805.03
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic; 2. Diluted:	-11.56 -11.56	-7.36 -7.36	-60.58 -60.58

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results, including detailed notes to such financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.valueind.in) For VALUE INDUSTRIES LIMITED

Place: New Delhi Date: June 08, 2023

1. Basic:

2. Diluted:

Date: June 8, 2023

Abhijit Guhathakurta

(Resolution Professional)

VALUE INDUSTRIES LIMITED Registered Office: 14KM Stone, Aurangabad-Paithan Road, Village Chittegaon, Taluka Paithan, Aurangabad- 431 005 CIN No. L99999MH1988PLC046445 FOR THE QUARTER / HALF YEAR ENDED 30" SEPTEMBER, 2021

_				(Amour	nt in Million
SI.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2022	Corresponding 3 months ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.202
		Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations		7.71	1.50	11.05
2.	Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-1496.23	-898.36	-2158.47	-2373.76
3.	Net Profit / (Loss) for the period beforetax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-1496.23	-898.36	-2158.47	-2373.76
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-1496.23	-898.36	-2158.47	-2373.70
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-1496.23	-898.36	-2158.47	-2373.76
6.	Equity Share Capital	391.86	391.86	391.86	391.86
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			-11955.51	-9805.03
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic: 2. Diluted;	-38.18 -38.18	-22.93 -22.93	-55.08 -55.08	-60.58 -60.58

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results, including detailed notes to such financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.valueind.in) For VALUE INDUSTRIES LIMITED

Place: New Delhi Date: June 8, 2023

Abhijit Guhathakurta NIDHI GRANITES LIMITED

Regd. Office: 503, Madhu Industrial Park, Mogra Cross road, next to Apollo Chambers, Andheri East, Mumbai 400069. Tel No: (022) 2649 1040; Fax: (022) 2648 5481 Email Id: nglindia2021@gmail.com Website: www.nidhigranites.com

CIN NO: L51900MH1981PLC025677

NOTICE Notice is hereby given that **41st Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held

at 503, Madhu Industrial Park, Mogra Cross road, next to Apollo Chambers, Andheri East, Mumbai 400069 on Saturday, July 22, 2023 at 11.30 a.m. to transact the business as set out in the Notice of AGM which along with Annual Report 2022-2023 has been sent electronically to those members who have registered their email addresses with Company/Depository Participants. Any Member desirous of receiving a physical copy of the Annual Report, is requested to contact the Company. The 41st Annual Report is also available on Company's website at www.nidhigranites.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") and Regulation 44 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), the Company is offering remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted at The Company has engaged services of 'Central Depository Services (India) Limited' as the authorized agency to provide the remote e-voting facility to its members. The cut-off date for

determining the eligibility to vote by electronic means and poll is Saturday, July 15, 2023. The communication relating to remote e-voting containing User Id and password/pin along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched to the members. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically for which remote e-voting will commence from 9.00 a.m. on Wednesday, July 19, 2023 up to 5.00 p.m. on Friday, July 21, 2023. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a

member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of cut-off date i.e. July 15, 2023 may obtain login ID and password by sending an email to nglindia2021@gmail.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com or jp@unisec.in by mentioning his/her Folio No./DP ID and Client ID. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then they can use his/her existing user ID and password for casting vote. Pursuant to section 107 of the Act, voting through polling paper shall also be made available

to those members who attend the AGM and have not cast their vote by e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of any query, you may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of "www.evotingindia.com" or

contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, Marathon Futurex, A-Wing 25th Floor, Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E) Mumbai-400013 or at helpdesk.evoting@cdslindia.com or on Phone No: 1800225533. By Order of the Board For NIDHI GRANITES LIMITED

> Sd/-Darpan Shah **Managing Director** (DIN: 07650896)

> > New Delhi

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

Regd. office: 516, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi-110058 Tel No. 0124-4396900, E-mail: compliancesdfl@gmail.com; Website: www.somdattfin.com, CIN: L65921DL1993PLC377542

> NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 30th (Thirtieth) Annual General Meeting (AGM) of the

Company will be held on Friday, 21st July, 2023 at 12:00 p.m. through video conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-23 on 28th June, 2023 through electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the circular nos. 20/2020 dated May 5, 2020 read with circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, and May 05, 2022 respectively and subsequent circulars issued in this regard, latest being 10/2022 dated December 28. 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"). The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial Year 2022-23 is available and can be downloaded from the company's website https://www.somdattfin.com/investors/annual-report/ and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the members shall be in proportion of equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on Friday 21st July, 2023. (cut off date). The remote e-voting period commences on 18th July, 2023 (9:00 a.m. IST) and ends on 20th July, 2023 (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote

electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. If you have not registered your e-mail address with Company/Depository you may please follow below instructions for obtaining login id details for e-voting:

Shareholders holding shares in physical mode are requested to submit the form ISR-1 along with supporting documents in original to the Registrar and Transfer Agents of the Company, RCMC Share Registry Pvt. Ltd. at B-25/1 Holding Okhla Industrial Area, Phase -2, Near Rana Motors, New Delhi - 110020 for registering email address. The said form is available on the website of the

company under the head Investor-Announcement-Information to physical shareholder Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process

advised by your DP.

evoting@nsdl.co.in.

For details relating to e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request at

For SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

Simran Malhotra Place: Gurugram Company Secretary Date: 28/06/2023



MAAN ALUMINIUM LIMITED Regd. Off.: 4/5, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

CIN: L30007DL2003PLC214485, Ph: 40081800, Email: info@maanaluminium.in / Website: www.maanaluminium.com

Notice of 20th Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting ("AGM" of the Members of Maan Aluminium Limited ("the Company") will be held through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") or Wednesday, July 19, 2023, at 11:00 A.M. (IST) to transact the Ordinary and Special businesses, as set out in the Notice of the 20th AGM. Th venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., 4/5, First Floor, Asaf Ali Road, New Delhi 110002.

In compliance with General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020 General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 08, 2021, 20/2021 dated December 14, 2021, 02/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 dated Decembe 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 1: 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January , 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEB Circulars'), permitting convening of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue, the attendance of members attending through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

In compliance with the applicable circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the Financial Year 2022-23 have been sent to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s). The electroni dispatch of Annual Report to Members has been completed on Thursday June 27, 2023. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2022-23 has been dispense with pursuant to the aforesaid MCA Circulars/ SEBI Circulars. The Annua Report and Notice of 20th AGM are also available on the Company's website www.maanaluminium.com and on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. i.e. https://instavote.linkinfime.co.in and can also be accessed on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and

Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2, the Company is pleased to provide electronic voting facility to Members to exercise their right to vote on resolutions proposed to be transacted
- the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e. Wednesday, July 12, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-votin during the 20th AGM. A person who is not member as on the said cut-of date should treat this notice for information purpose only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share

A person whose name is recorded in the Register of Members or in

of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 12, 2023. The remote e-voting period will commence on July 16, 2023 at 09:00 A.M. and ends on July 18, 2023 at 05:00 P.M. The remote e-votini

module shall be disabled for voting at 05:00 P.M. on July 18, 2023

Once the vote on a resolution is cast by the member, the membe

The remote e-voting module will be disabled by Link Intime thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time Members who have acquired shares after sending the Annual Report

through electronic means and before the cut-off date are requested

cannot modify it subsequently.

to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted fo obtaining the USER ID and Password for casting the vote. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be

eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote

Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the provided in the AGM Notice which is available on the Company's website at www.maanaluminium.com, on the website Link Intime India Pvt. Ltd. i.e. https://instavote.linkintime.co.in and on the websites of Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

n case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in. under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us:- Tel: 022-

M/s A Abhinav & Associates, Company Secretaries have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall

be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.maanaluminium.com and BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. www.nseindia.com. Result will be declared forthwith on receipt of the Report of the Scrutinizer.

Manner of registration of e-mail address The entire shareholding of the Company is in Demat form. For the limited

purpose of sending the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 through e-mail to those members whose e-mail address is not registered with their Depository Participant, such members may also temporarily get their e-mail id registered by providing the Demat account details (CDSL-16 digits beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID -CLID), name, client master or copy of Consolidated Account Statement PAN Card (Self Attested Copy), Aadhar Card (Self Attested Copy) to Company at cs@maanaluminium.in / RTA e-mail id at enotices@linkintime.co.in or visit the link https://instavote.linkintime.co.in It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register the same with their respective Depository

Record Date for Sub Division and Bonus The Company has fixed Thursday, 27th July, 2023 as the Record Date

for determining the eligibility of members to receive Bonus and Sub Division of Shares, subject to the approval of shareholders at the AGM.

By order of the Board For Maan Aluminium Limited

Ravinder Nath Jain

Place: Delhi Chairman and Managing Director Date: 27.06.2023

financialexp.epapr.in

and supply of electrical energy."

and Liquid Ratio/Quick Ratio = 43.75:1

Place : Bengaluru

are given hereunder:

(xii) Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors was ever

The application made, and other documents filed before the Commission are available for

on www.energyedge.in

Date: 29-June, 2023

www.ireps.gov.in देखें।

16/एम-टीआरडी-29-आई-ओटी-2022-23-18आर3 तिथि 26.6.2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक/टैक्शन वितरण शाखा, चेन्नई मंडल, एस. रेलवे, चेन्नई-3 द्वारा निम्न कार्यों के लिये अनुभवी ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है। अधिक विवरणों के लिये

71.			।साय/ समय
1.	निविदा सं. एम-टीआरडी-29-आई-ओटी-2022-23-18आर3 चेन्नई मंडल के तिरुनिनरावुर में पीएफ 3/4 के चौड़ीकरण तथ विस्तारीकरण तथा नये प्लेटफार्म के प्रावधान के सिलसिले में ओएचइ सुधार कार्य		21.7.2023 (15.00 बजे)
2.	निविदा सं. एम-टीआरडी-29-आई-ओटी-2023-24-16 चेन्नई मंडल के एजेजे-केपीडी खंड में जीआर. ए एवं बी मार्गों पर 130 केएमपीएच पर रिनंग की फिटनेस के लिये वर्तमान ओएचई व्यवस्था क सुधार/प्रोन्नयण	12.377/000.04	27.07.2023 (15.00 बजे)
3.	निविदा सं. एम-टीआरडी-29-आई-ओटी-2023-24-13आर ओएचई प्रणाली की व्यवस्था में सुधार के लिये चेन्नई मंडल में सिग्नल के सामने आईओएल का पुनर्स्थापन	14047878/-	21.07.2023 (15.00 बजे)

तिथि /समय

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड A DESCRIPTION ग्जिंकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बंसत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली—110057 शाखां कार्यालय : 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

गर्वजनिक सचना (अचल सपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ९(१) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतू सूचना एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों को सचित किया जाता है कि प्रतिभत ऋणदाता के पास बंधककत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका अधिग्रहण हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 18-जुलाई-2023 (ई-नीलामी तिथि) को ''जैसी है जहां है". "जैसी है जो है" और "वहां जो कछ भी हैं" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर से देय–भग्तेय बकाया राशियों की वसली के लिए किया जाायेगा। आरक्षित मल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज को डिमांड डाफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि के प्राधिकृत अधिकारी के पास 17-जुलाई-2023 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा कार्यालयः भवन सं. २७, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली—11005७ पर प्रस्तुत / जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ऑ)/सह–उधारकर्ता (ऑ)/गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारी (रियों)/ विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनागत/ भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि
HHFNSP HOU1900	विकास कुमार, कोमल रानी	19-09-2022 रु. 30,49,730 / - दिनांक 27-06-2023	भौतिक	৳. 18,00,000 ∕ −
0004609		के अनुसार		₹. 1,80,000/-

के साथ निर्मित संपर्तित सं. 181 के पता रूप में, खसरा सं. 105/11 में से, ग्राम पालम की राजस्व संपद दिल्ली, विश्वास पार्क के नाम से विदित कॉलोनी, ब्लॉक–ई में स्थित है, जो उसके नीचे की भूमि व समानुपातिक अधिकारों के साथ तथा विक्रय विलेख में संवर्णित अन्य सूख-सूविधाओं के साथ है, जिसका क्षेत्र माप 60 वर्ग गज अर्थात् 50.16 वर्ग मीटर है तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है:- पूर्व- अन्य संपत्ति, उत्तर-सङ्क 18 फूट, पश्चिम- अन्य संपत्ति, दक्षिण- संपत्ति का भाग। नियम एवं शर्तैः ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से दिनांक 18-जुलाई-2023

(ई-नीलामी तिथि) को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे के मध्य 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के सा (1) निर्धारित निविदा / बोली प्रपत्र तथा विक्रय के नियम एवं शर्ते, शाखा कार्यालयः 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत

लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 पर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 से सायं 05.00 बजे के मध उपलब्ध होंगे। (2) अचल संपत्ति का आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं किया जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/— (रुपए दस हजार मात्र) होगी। (4) उपरोक्त संपत्ति के क्रयार्थ जमा/प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों / निविदाओं के साथ उपर्यक्तानसार धरोहर राशि "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में आहरित डिमांड डाफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। ई-नीलामी के उपरांत असफल बोलीदााओ को धराज राशि वापस कर दी जायेगी। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह बोलीदान हेतू विधिक रूप में सदैव अर्हक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति सर्वोच्च बोली को अस्वीकार / स्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा है। (6) प्रस्तावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का अवलोकन, पूर्व नियुक्ति के साथ 10-जुलाई-2023 को 11.00 बजे से लेकर के 2.00 बजे तक किया जा सकता है। (७) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को, ऐसी घोषणा के बाद तत्काल, क्रयराशि / सर्वोच्च बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी / विक्रय हेत् रख दिया जाएगा। (8) यदि उपरोक्तानसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो भुगतानयोग्य क्रय राशि की शेष रकम का भुगतान, क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वां दिवस के बाद के प्रथम कार्यालय दिवस को भुगतान करना होगा। (9) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चक होने की स्थिति में, संपत्ति को निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी / विक्रय हेत रख दिया जाएगा धराज सहित अन्य जमा राशियों को हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा। (10) उपरोक्त विक्रय, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगा। (11) हीरा हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात किसी भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेत् संपत्ति है: अज्ञात हैं। दावे, यदि कोई है, जिन्हें संपत्ति हेत् अग्रसारित किया गया है तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य का कोई अन्य ज्ञात विवरणः अज्ञात है। (12) इच्छुक पक्षकारों से अनूरोध है कि वे संवैधानिक एवं अन्य प्रदेयताओं जैसे कि संबंधित विभागों / कार्यालयों के विक्रय / सपंत्ति कर, विद्यत बकायों, एवं सोसाइटी बकायों, इत्यादि सहित का सत्यापन / अभिपृष्टि कर लें। कंपनी, संपत्ति पर बकाया किसी देयक राशि के भूगतान का कोई भी उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करती। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा 1: टीडीएस, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा। भुगतान, सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा कंपनी के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है तथा चालान की प्रति कंपनी के पास जमा करनी होगी। (14) विक्रय, पूर्णतः इस विज्ञापन तथा निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन है। (15) सफल बोलीदाता/क्रेता को विधि—व्यवस्था के अनुरूप प्रयोज्यानुसार विक्रय प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने हेतू प्रभारित समस्त स्टांप शुल्कों, पंजीकरण शुल्कों एवं आकस्मिक व्ययों का भुगतान वहन करना होगा। (16) प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण बताए बिना बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा निविदा को हटाने / स्थगित / निरस्त करने और कोई भी पूर्व सूचना दिए बिना इस विक्रय के किसी नियम एवं शर्त को बदलने का भी पूर्णाधिकार है। (17) इच्छ्क बोलीदातागण श्री राज मिश्रा को मोबाइल नं. 9971808985 पर कार्यालय समय (प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे) के दौरान संपर्क कर सकते हैं अथवा संपत्ति का खाता सं./उधारकर्ता का नाम वर्णित करते हुये assetdisposal@herohfl.com पर मेल

support@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं। ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता हेतु 15 दिवसीय विक्रय सूचना 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि का तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ भगतान कर दें। भगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि. यदि कोई निकलती है, की वसूली आप से ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभृत ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/ hero_housing.

कर सकते हैं। (18) किसी अन्य विवरण के लिए या ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रक्रिया के लिए संभावित

बोलीदातागण, सेवा प्रदाता, मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शनटाइगर), ईमेल आईडी:

दिनांक : 29-जून-2023

प्राधिकृत अधिकारी, श्री सुनील यादव, मोबाइल-9818840495 ईमेल : assetdisposal@herohfl.com

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विधिक प्रकोष्ठ

प्लॉट नं. 31, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, टॉवर-ए, प्रथम तल, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

11/1/47जी, रकबा 0.40 हेक्टेयर यानी 405.2 वर्ग मीटर, नेहरू नग

कॉलोनी, वार्ड नंबर 8, पटवारी हल्का पंजरेह, री सर्कल बैढ़न, तहसील

पंजरेह, सैपिएंट स्कूल के पास, बीएसएनएल टॉवर, जिला सिंगरौली, मध्य

आवासीय संपत्ति क्रमांक 95, प्रथम तल, क्षेत्रफल 175 वर्ग मीटर, सेक्टर- 09.03.2023

1. भृतल पर निर्मित भाग, छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 25.76 वर्ग _{29.01.2021}

मीटर, फ्रीहोल्ड संपत्ति संख्या VII/2251/6-जी में से, माप 25.76 वर्ग मीटर

की निचली भूमि के आनुपातिक अविभाजित अविभाज्य और निष्पक्ष स्वामित्व

अधिकारों के साथ। 200 वर्ग गज में से अधिरचना के साथ, खसरा नंबर

652/290 में से, फ्रीहोल्ड प्लॉट नंबर 56 पर निर्मित, ब्लॉक-सी में, वार्ड नंबर

XVII में, गुरु नानक नगर, शादीपुर, नई दिल्ली की आबादी में स्थित है,

2. पहली मंजिल (पिछला भाग) बिना छत/टेरेस अधिकार के, माप 60 वर्ग

गज. अर्थात 50.17 वर्ग मीटर लगभग, फ्री-होल्ड संपत्ति एमपीएल क्रमांक

Xvii/2251/6-बी/3 का हिस्सा, 120 वर्ग गज की भूमि पर निर्मित प्रवेश,

मार्ग और सीढ़ी के सामान्य अधिकारों के साथ, भूमि में आनुपातिक हिस्सेदारी

के साथ-साथ उक्त संपत्ति के स्टिल्ट फ्लोर पर सामान्य पार्किंग क्षेत्र में एक

बाइक/दोपहिया वाहन के लिए सामान्य पार्किंग के साथ, गांव खामपर राया,

दिल्ली के क्षेत्र में, आबादी गुरु नानक नगर, न्यू रणजीत नगर, नई दिल्ली में

स्थित। मालिक का नाम श्रीमती सना परवीन सिद्दीकी, संपत्ति का प्रकार

दुकान नंबर 439, बी-टाइप, 35 वर्ग गज पर निर्मित ग्राउंड फ्लोर, नेहरू पार्क 08.05.2023

मालिक का नाम श्री मुबश्शिर मसर्रत संपत्ति का प्रकार : वाणिज्यिक

19, अंबरहाई (द्वारका) आवासीय योजना के लेआउट में स्थित, द्वारका,

प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

निम्नलिखित कर्जदार तथा जमानतियों एवं बंधककर्ताओं ने एचडीएफसी बैंक लि. से निम्नलिखित प्रतिभत ऋण लिये थे। निम्नलिखित कर्जदारों तथा जमानतियों एवं बंधककर्ताओं के ऋण उनकी सम्बद्ध सम्पत्ति के बंधकीकरण द्वारा प्रतिभूत हुए थे। चूँकि वे सम्बद्ध ऋण अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में असफल तथा अनियमित हो गये अतः ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया

गया। उनके द्वारा एचडीएफसी बैंक को देय बकाया निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है और पुनः कथित राशि पर यथाप्रयोज्य ब्याज भी देय है और इसे उनकी प्रभावी सम्बद्ध तिथियों से वसूल किया जायेगा। 13(2)/सूचना तिथि कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों/बंधककर्ता के नाम तिथि के अनुसार बकाया

तिथि 02.06.2023

तक/सचना तिथि :

08 जून, 2023

रु. 38,76,182/−

तिथि 02.06.2023

/सूचना तिथि :

06 जून, 2023

दिल्ली-110075

मालिक का नामः श्री यश पाल

संपत्ति का प्रकारः आवासीय

प्रदेश (श्रीमती कुसुम सिंह के स्वामित्व वाली संपत्ति)

लोअर ग्राउंड फ्लोर, मेन टैंक रोड, माता रामेश्वरी, नेहरू नगर, करोल बाग , 2. श्री अखिलेश श्रीवास्तव (गारंटर) पुत्र श्री हरि शंकर श्रीवास्तव पताः - सी-34,

तीसरी मंजिल, पांडव नगर, शकरपुर, दिल्ली-110092 3. श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव (गारंटर) पत्नी श्री अखिलेश श्रीवास्तव पताः - सी-34.

तीसरी मंजिल, पांडव नगर, शकरपर, दिल्ली-110092

. मेसर्स स्क्रबर्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) इसके निदेशकोंः – श्री मबश्शिर मसर्रत और श्रीमती सना परवीन सिद्दीकी के माध्यम से, पताः

2251/6-जी, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-सी, गुरु नानक नगर, रंजीत नगर, नई दिल्ली

मकान नंबर 2251/6-जी, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-सी, गुरु नानक नगर, रंजीत नगर. नई दिल्ली -110008 3. श्रीमती सना परवीन सिद्दीकी (गारंटर और बंधककर्ता) पत्नी श्री मुबश्शिर मसर्रत

पताः - मकान नंबर। 2251/6-जी, दूसरी मंजिल, गुरु नानक नगर, रंजीत नगर, 4. सुश्री अस्थमा खातून (गारंटर) पत्नी श्री मसर्रत अली पताः - एम.ए. नगर खान

टाइप स्कूल मलकाना, संडीला, हरदोई, उत्तर प्रदेश-241204

से पताः - दुकान नंबर बी -439, ग्राउंड फ्लोर नेहरू ग्राउंड, एनआईटी,

फरीदाबाद हरियाणा -121001 2. श्री ओम प्रकाश (सह-कर्जदार एवं बंधककर्ता) पुत्र स्व. बलजीत सिंह पताः मकान नंबर 446, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-21 डी, फरीदाबाद, हरियाणा-

3. सुश्री रेखा रानी (सह-कर्जदार) पत्नी श्री ओम प्रकाश पताः - मकान नंबर 446,

रु. 11,25,574/−

तिथि 17.05.2023

तक/सूचना तिथि

26 मई, 2023

आर्यावर्त बैंक प्रधान कार्यालय, A-2/46, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०)-226010 (भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम) 24 बितीय साक्षरता केन्द्रों में बितीय साक्षरता सलाहकार की नियुक्ति:

के लिए आवेदन आमंत्रित करता है । विवरण निम्नानुसार हैं: रिक्तियां पद का नाम पारिश्रमिक आगरा. अलीगढ. बहराइच. बांदा. नियत- 15000 /-बाराबंकी, चित्रकृट, एटा, फर्रखाबाद, एवं रु. 3000 /-साक्षरता (प्रत्येक (मोबाइल और यात्रा फिरोजाबाद, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, परामर्शदाता स्थान के उरई, कन्नौज, लखीमपुर– खीरी, व्यय) घोषणा के विरुद्ध लिए एक लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मिर्जापुर, भिंगा, (कुल रु. 18000/-)। सीतापुर, बिसवां, सोनमद्र और उन्नाव।

गर्यावर्त बैंक, प्रधान कार्यालय, लखनऊ ने अनुबंध के आधार पर वित्तीय साक्षरता परामशदाता के प

विस्तृत अधिसूचना के साथ "आवेदन पत्र" हमारी वेबसाइट "www.aryavart-mb.com" पर उपलब्ध 2023 सायं 5.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में आर्यावर्त बैंक के आवेदित स्थान के सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंच जाना चाहिए (रिक्ति स्थान के नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय का पता एवं क्षेत्रीर कार्यालय पर संबंधित व्यक्ति का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)। कृपया ध्यान दें वि आर्यावर्त बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया, विज्ञापन को रह / स्थगित करने का अधिकार रक्षित रखता है। आवेदनें पत्रें प्राप्त न होने या डाक मार्ग में खो जाने या आवेदन पत्र प्राप्त होने र र्केसी भी प्रकार की देरी के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। आंशिक रूप से भरे य अधरे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को वार्षिक अनुबंध के आधार फ नियुक्त किया जाएगा। अनुबंध का वार्षिक नवीनीकरण बैंक विवेकाधिकार एवं बैंक की मौजदा नीतियं और नियमों के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। यदि चयन हो जात है. तो आवेदक को प्रस्ताव पत्र की स्वीकृति की तिथि पर पूर्ण या अंशकालिक आधार पर या अनुबंध वं आधार पर किसी भी सरकारी या निजी संस्था से संबद्ध नहीं होना चाहिए

अधिक जानकारी के लिए रिक्ति स्थान के नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय समावेशन विभाग के संबंधित अधिकारी से संपर्क करें या बैंक की वेबसाइट- www.aryavart-rrb.com

दिनांकः 29.06.2023 स्थानः लखनऊ

GLOBUS SPIRITS LIMITED CIN: L74899DL1993PLC052177

Regd. Office:- F-0, Ground Floor, The Mira Corporate Suites, Plot No.1&2, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi-110065 | Ph:011-66424600, Fax:011-66424629. E-mail:corporateoffice@globusgroup.in, Web:www.globusspirits.com

Notice of AGM & Fixation of Book Closure Date Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the company for the financial year 2022-23 will be held on Saturday, 22nd July 2023 at 12.00 Noon at the Registered Office of the company through Video conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means("OAVM"). Please also note that the company has fixed the cut-off date (i.e. record date) for the purpose of reckoning eligibility of members for e-voting & for voting on the AGM date as well as for payment of final dividend for the FY 2022-23 is Saturday, 15th July, 2023. The Book Closure Date for the purpose of AGM has been

fixed from 16th July 2023 to 22nd July 2023 (both days inclusive). The 30th AGM Notice and Annual Report for the year ended 31st March 2023 has been e-mailed at their e-mail address registered with the company/the DPs/the RTA, as the case may be. The AGM Notice as well as Annual Report is also available on the

company's website www.globusspirits.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members through Link Intime India Private Limited. ("LIIPL") to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM of the Company by electronic means and the business may be transacted through remote e-Voting (https://instavote.linkintime.co.in). The Voting period begins on 19th July 2023 at 9.30 A.M. and ends on 21st July 2023 at 5.30 P.M. The voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter.

For Globus Spirits Limited Dated: 27th June, 2023 Santosh Kumar Pattanayak

(Company Secretary)

MAAN

मान एल्युमिनियम लिमिटेड

सीआईएन : L30007DL2003PLC214485, दूरभाष : 40081800, ई-मेल : info@maanaluminium.in/वेबसाइट : www.maanaluminium.com 20वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 20वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रकार्य के लेन-देन

🛮 ५ मई, २०२०, सामान्य परिपत्र सं. ०२/२०२१ दिनांक १३ जनवरी, २०२१, १९/२०२१ दिनांक 08 दिसम्बर, 2021, 20/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 तथा 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 (''एमसीए परिपत्र'') तथा भारतीय प्रतिभृति एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई. 2020, परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी. 2021, परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 तथा परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में

उपस्थिति की गणना एजीएम हेतु कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी। लागू परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सिहत एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण गुरुवार, 27 जून 2023 को पूरा हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को उपरोक्त एमसीए परिपत्रों/सेबी परिपत्रों के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। 20वीं एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.maanaluminium.com और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है और स्टॉक

एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com से

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश:

करने के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है।

वह व्यक्ति जिसका नाम ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 12 जुलाई, 2023 तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के

कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। िरिमोट ई-वोटिंग अवधि 16 जुलाई, 2023 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और 18

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है. वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम नोटिस में दिए गए हैं जो कंपनी की वेबसाइट www.maanaluminium.com, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

यदि शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है. तो आप https://instavote.linkIntime.co.in सहायता अनुभाग के अंतर्गत Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा Instavote e-Voting manual देख सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिखें या हमें दुरभाषः

022- 49186000 पर कॉल करें। एजीएम से पहले और उसके दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए मैसर्स ए. अभिनव एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रुटिनाइजर के रूप

कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे। स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की विबसाइट www.maanaluminium.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर अपलोड किये जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिणाम तुरंत घोषित किया जाएगा।

कंपनी की पूरी शेयरधारिता डीमैट फॉर्म में है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के सीमित उद्देश्य के लिए, जिनका ई–मेल पता उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, ऐसे सदस्य अस्थायी रूप से अपना ई–मेल भी प्राप्त कर सकते हैं। डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल– 16 अंक लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16-अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, 🛮 ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्वयं प्रमाणित प्रति), आधार कार्ड (स्व सत्यापित प्रति) कंपनी को cs@maanaluminium.in/आरटीए ई–मेल आईडी

enotices@linkintime.co.in https://instavote.linkintime.co.in देखें। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत करें। सब डिवीजन और बोनस के लिए रिकॉर्ड तिथि

बोर्ड के आदेश से मान एल्युमीनियम लिमिटेड एसडीएफ के लिए- रविंदर नाथ जैन अध्यक्ष

स्थानः दिल्ली

दिनांक: 27.06.2023

www.readwhere.com

एवं प्रबंध निदेशक बोर्ड के आदेशानसार

कते मान एल्यमीनियम लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 की उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

अमीश हेल्थ सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः सी-८, अशोक निकेतन, आनंद विहार के पास, दिल्ली 110092 में है, के मामले में याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्रद्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 16.06.2023 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएश कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने

की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या कारण प्रदान कर सकते है या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के पते बी–2 विंग, 2वीं तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 ईमेलः rd.north@mca.gov के पास इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के निम्नलिखित दिए गए पते पर पंजीकत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए

सी–8. अशोक निकेतन, आनंद विहार के पास, दिल्ली 110092

अमीश हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए एवं की ओर से रामवीर सिंह त्यागी निदेशक दिनांकः 16.06.2023 डीआईएन : 00709928 स्थान : नई दिल्ली

संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस रपेसविज़न इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) (कंपनी परिसमापन प्रक्रिया के तहत माननीय एनसीएलटी आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2022) परिसमापक का कार्यालय : ई —504, इस्पातिका अपार्टमें ट, प्लॉट—29, सैक्टर—4, द्वारका, नई दिल्ली— 110078

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत संपत्ति की बिक्री आवेदन करने और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि: 13 जुलाई, 2023 बोलीदाता की घोषणा की तिथि : 15 जुलाई, 2023 निरीक्षण, नीलामी के तहत संपत्ति का उचित परिश्रम : 22 जुलाई, 2023 ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 24 जुलाई, 2023

(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नियक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापन एस्टेट का हिस्सा बनने वाले **रपेसविजन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)** के स्वामित्व वाली संपत्तियों की बिक्री । बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई—नीलामी प्लेटफॉर्म https://www.eauctions.co.in द्वारा की जाएगी।

नीलामी की तिथि और समय: 27 जुलाइ, 2023, सुबह 11.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक

किकी के लिए संपन्तियों का मल विवरण

संपत्ति का प्रकार	स्थान / पता / क्षेत्र	समूह / संपत्ति का ब्लॉक	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (रू.)
गैर कृषि भूमि	गैर—कृषि भूमि (पट्टा भूमि सं.) क्र.सं. 24, 28 / 4, 28 / 5, 29 / 4, 29 / 5, 31 / 3 सी । गांव — ताजसुल्तानपुर, तालुका और जिला गुलबर्गा, कर्नाटक 7.625 एकड़ में है	~~	ক. 121.50 লান্ত / ক.12.15 লান্ড
दुकान / कार्यालय	5 वीं मंजिल पर स्थित नगरपालिका उप संख्याः 84/47 एफ 4 वाला दुकान/कार्यालय परिसर, संपत्ति संख्या 84 (पुराना नं. 12), जया चामराजेंद्र रोड, बैंगलोर, जिसमें 1293 वर्ग फुट का सुपर निर्मित क्षेत्र है और 8250 वर्ग फुट का 196.21 वर्ग फुट का अविभाजित हिस्सा है। उत्तरः बी.एच.के. शेरिफ लेंड, दक्षिणः शकूर ब्रदर्स बिल्डिंग, पूर्वः जेसी रोड, पश्चिमः कॉर्पोरेशन रोड		रू. 80.00 लाख / रू.8.00 लाख

ज्ञापन" में वेबसाइट यानी http://www.eauctions.co.in पर अपलोड किया गया है ।

कोई भी गंभीर और इच्छक खरीदार इसकी जांच और बोली प्रस्तुत कर सकता है । ई-नीलामी एजेंसी (लिंकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से संपर्क व्यक्तिः श्री दीक्षित प्रजापति, ईमेल:admin@eauctions.co.in, मोबाइल नं.: +917874138237, 9870099713 परिसमापक की ओर से संपर्क व्यक्तिः सीएस सूरज कुमार, ईमेलः liq.spacevision@gmail.com मोबाइल नं.: +91 9643161757

राकेश प्रसाद खंडेलवाल, परिसमापक देनांक: 29.06.2023 आईबीबीआईपंजीकरण संख्या :IBBI/IPA-002/IP-N00639/2018-19/11950 स्थानः नई दिल्ली पताः ई-504, इस्पातिका अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 29, सैक्टर 4,द्वारका, नई दिल्ली : 110078

> प्रपत्र स. 14 [विनियम 33(2) देखें] वसूली अधिकारी-1 का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बेंगलुरू (डीआरटी-1) भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा प्रभाग ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, कर्नाटक (बेंगलुरू)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की घारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

चतुर्थ तल, टेलीफोन हाउस, राज भवन रोड, बेंगलुरू-560001

आरसी / 8439 / 2015 20-04-2023 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड बनाम मैसर्स जेन्ट्रम ऐंड मेकर्स इन्क.

(सीएच-1) आईडीबीआई बैंक नंबर 102, शक्ति कम्फट्स टावर्स के.एच. रोड. बेंगल्स-560027.

.आवेदक बैंक / प्रमाणपत्र धारक

सेवा में, (सीडी-1) **मैसर्स जेन्ट्रम ऐंड मेकर्स इन्क.,** नंबर बी–89, द्वितीय तल, दयानंद कालोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024. अन्य पता : प्रथम तल, नंबर 18/4, फर्स्ट मेन रोड, सम्पनगिराम नगर, बेंगलुरू-560027

(सीडी-2) श्री सागर वौधरी पुत्र श्री श्रीमंता वौधरी (सीडी-1) श्रीमती रीता चौधरी पत्नी श्री श्रीमंता चौधरी, दोनों निवासी : नंबर 57, श्रीनिवागिल्, चतुर्थ ब्लॉक, कोरमंगला, विवेकनगर पोस्ट बेंगलुरू–560047

यह अधिसूचित किया जाता है कि ओ.ए. सं. 20/2013 में पीठ अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण बेंगलुरू (डीआरटी-1) द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रू. 2,81,10,266.00 / – (रूपए दो करोड़ इक्यासी लाख दस हजार दो सौ छियासठ मात्र) की एक राशि लम्बित ब्याज और ओ.ए. दाखिल करने की तिथि अर्थात 06-08-2012 से उसकी वसूली तक 15.50 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर भावी ब्याज और

रू. 2,79,193.40 / - (रूपए दो लाख उनासी हजार एक सौ तिरानवे मात्र) की लागतें आप के विरूद्ध (संयुक्त और पृथक रूप से / पूर्णतया / सीमित) बकाया देय हो चुकी हैं। 2. एतदद्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भगतान सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की

वसूली अधिनियम, 1993 और तदधीन विरचित नियमों के अनुसार की जाएगी। 3. एतदद्वारा आपको अपनी आस्तियों का विवरण एक शपथपत्र पर, सुनवाई की अगली तारीख से पहले, घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. एतदद्वारा आपको 19-05-2023 को पूर्वा. 10.30 बजे आगे की कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हैं : (क) ब्याज जो प्रमाणपत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सचना के शीघ्र पश्चात आरंभ हो रही

अवधि हेत देय है। (ख) इस सूचना तथा वारंट्स की तामील और अन्य प्रक्रियाओं तथा बकाया राशि की वसली के लिए की गई अन्य कार्यवाही के संबंध में वहन की गई सभी लागतें, प्रभार और खर्चे।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 20-04-2023 को दिया गया। वसूली अधिकारी-1 ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1 बेंगलुरू

ऋण वसुली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ (तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित है)

[विनियम-15(1 X ए) देखें]/16(3) मामला सं.: ओए/53/2023 ऋण वसली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साध पठित अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन) इंएक्सएय ने. 17754

केनरा बैंक बनाम एवन इंडस्ट्रीज और अन्य

(1) एवन इंडस्ट्रीज और अन्य। डी/डब्ल्यू/एस/ओ- श्री विधिन गुप्ता एवन इंडस्ट्रीज, एक साझेदारी फर्म 66/8, खेडा ख्रंमपुर औद्योगिक क्षेत्र, फरुंखनगर- 122508, गुरुग्राम (पहले गुडगांव)- 122001 हरियाणा अपने साझेदारों अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 और 3 गुड़गांव, हरियाणा के माध्यम से (2) श्री विपिन गुप्ता पुत्र श्री माम चंद गुप्ता निवासी जी 6 साठथ सिटी 2 ग्राउंड फ्लोर गुड़गांव, हरियाणा।

गडगांव)- 122001 हरियाणा चुंकि दिनांक 29.04.2023 को ओए/53/2023 माननीय **पीटासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार** के समक्ष सूचीबद्ध

(3) श्रीमती जया गुना पत्नी श्री विपिन गुना निवासी जी 6, साउथ सिटी 2, ग्राउंड फ्लोर, गुरुग्राम (पहले

चुकि, यह माननीय न्यायाधीकरण राशि 10135603.94/- रुपए (दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न हैं) के ऋणों की वस्ली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत कथित आचेदन पर समन/नोटिस जारी करता है।

अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के तदनुसार, प्रतिवादी को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता

गई है वह क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए। (ii) मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संपत्तियों तथा परिसंपत्तियों के

(iii) आपको मल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रदर्शित की गई प्रतिभितित परिसंपत्तियों या ऐसी किसी अन्य परिसंपत्तियों तथा संपत्तियों के साथ लेन-देन और निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है, साथ जुड़ी हुई संपत्तियों के लिए आवेदन की सुनवाई एवं निपटान लंबित है।

या प्रदर्शित किसी परिसंपत्ति या किसी अन्य संपत्तियों, जिस पर प्रतिभृति व्याज सुजित किया है, पर अपने व्यापार के सामान्य कोर्स को छोड़कर बिक्री, लीज या अन्यथा तरीके द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर (v) आप व्यापार के सामान्य कोर्स में प्रतिभृति परिसंपत्तियां या अन्य परिसंपत्तियां तथा संपत्तियों की बिक्री

आपको आवेदक हारा प्रस्तुत की गई उस प्रति के साथ लिखित बयान को दाखिल करने तथा दिनांक 07.07.2023 को पूर्वाहन 10.30 बजे इस रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता

मेरे हस्ताक्षर व इस न्यावाधिकरण की मुहर के अधीन 16.05.2023 को जारी किया गया।

ई-मेल: cic@cbi.gov.in

वेबसाईट: http://cbi.nic.in फैक्स: 24368639, दूरमाष: 24368638/24368641

27303222, 27301800 8

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया के पास पटरी पर, पॉकेट-।।, सेक्टर

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते या फोन

थानाध्यक्ष थाना नरेला, दिल्ली

UNITY Server

कॉपोरेंट कार्यालयः सेंटम हाउस. विद्यानगरी मार्ग. कलिना, सांताक्रूज (पूर्व) मुंबई - 400 098

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने 15/04/2023 को एक मांग सुचना जारी की थी जिसमें कर्जदार और गारंटरों को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने का आह्वान किया गया। कर्जदार और गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए कर्जदार और गारंटर को तथा सामान्य रूप से जनता को नोटिस अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 23/06/2023 को कब्जा कर लिया है।

करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन राशि और उस पर ब्याज के लिए युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

2. श्री हिमांशा जैन खसरा नंबर 821/2/1 से संबंधित अचल संपत्ति हजार छः सौ इकहत्तर 3. श्रीमती मीनू जैन संख्या 128 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, चौवन पैसे मात्र) ति 4. श्री संजय कुमार जैन श्रीमती मीनू जैन की। विक्रय पत्र के अनुसार 13/04/2023 तक तः	कर्जदार⁄गारंटर	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि
	एंटरप्राइज 2. श्री हिमांशु जैन 3. श्रीमती मीनू जैन	तहसील और जिला गाजियाबाद - 201001 में स्थित खसरा नंबर 821/2/1 से संबंधित अचल संपत्ति संख्या 128 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, श्रीमती मीनू जैन की। विक्रय पत्र के अनुसार सीमाएँ:- पूर्वः- प्लॉट संख्या 129, पश्चिमः- प्लॉट राजीव जैन, उत्तरः- सड़क 20 फीट, दक्षिणः- सड़क	(रुपये बारह लाख चौव हजार छः सौ इकहत्तर ए चौवन पैसे मात्र) तिथि 13/04/2023 तक तथ प्रयोज्य ब्याज एवं अन्य

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

के लिए मान एल्यमीनियम लिमिटेड के सदस्यों की अठारहवीं वार्षिक आम बैठक (20वीं एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 19 जुलाई, 2023 को 11.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स. पर आयोजित की जायेगी। एजीएम का मान्य स्थल कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 4/5, प्रथम तल, आसफ अली रोड, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020,

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम संचालित करने वाली अनुमित देते हुए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 के अनुसार, कंपनी 20वीं एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग

रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही 20वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो उक्त कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सुचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 12 जुलाई, 2023 तक

जुलाई 2023 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल 18 जुलाई. 2023 को शाम 05:00 बजे मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य इसे बाद में संशोधित नहीं कर सकता। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को लिंक इनटाइम द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्टॉनिक रूप से वोट करने की

जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि से पहले शेयर हासिल कर लिए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वोट डालने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए एजीएम

रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीका, ई-वोटिंग और एजीएम में

में नियक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान डाले गए वोटों के नतीजे एजीएम के समापन से दो

ई-मेल पते के पंजीकरण का तरीका

कंपनी ने एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, बोनस और शेयरों के सब-डिवीजन प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को रिकॉर्ड

रविन्दर नाथ जैन

चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नाम गरीब दास उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय बरकत राम निवासी मकान नं. 271, डबल स्टोरी, भारत नगर, अशोक विहार दिल्ली उम्र : 70 साल कद : 5'11" चेहरा : लम्बोतरा, रंग : सांवला, शरीरः पतला. **पहचानः** मानसिक रूप से कमजोर. जिसने चैकदार कमीज, सफेंद रंग की पैंट

गुमशुदा व्यक्ति की तलाश

और पांव में भूरे रंग की सैंडल पहने हुए है दिनांक 16.05.2023 से अपने घर से लापता है। इस संदर्भ में जीडी रिपोर्ट सं. 0076-ए दिनांक 18.05.2023 थाना भारत नगर, दिल्ली में दर्ज है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी

या सुराग मिले तो निम्नलिखित को सुचित करने की कृपा करें:-थाना भारत नगर, दिल्ली दूरभाष सं. 011-27301200,

पहचान की अपील



नंबरों पर सूचित करने की कृपा करें।

जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जिसकी आयुः लगभग 60-65 वर्ष, रंगः गेंहुआ, कदः 6', जिसने सिर्फ काले रंग की हॉफ पैंट पहनी थी, जो शमशान घाट ए-6, नरेला, दिल्ली में पड़ा मिला। इस संदर्भ में डीडी नं. 53ए, दिनांक 26.06.2023 को थाना

नरेला, दिल्ली में दर्ज है।

फोनः 011-27282350, 27280435 DP/7148/ON/2023

साकातक कब्जा सूचना (अचल संपात्तया हुतु) ानयम ८(१) दख कि. वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनिर्नाण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 के तहत और प्रतिभ

दिया जाता है कि उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न

~		करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान उ नाकर्षित किया जाता है।	ाधिनियम की धारा-13 की उ
कर्जदार⁄ग	ारंटर	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि
1. मैसर्स एंटरप्राइज 2. श्री हि: 3. श्रीमती 4. श्री सं	मांशु जैन	गुलाब वाटिका हदबस्त बेहटा हाजीपुर लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद – 201001 में स्थित खसरा नंबर 821/2/1 से संबंधित अचल संपत्ति संख्या 128 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, श्रीमती मीनू जैन की। विक्रय पत्र के अनुसार सीमाएँ:- पूर्वः- प्लॉट संख्या 129, पश्चिमः- प्लॉट राजीव जैन, उत्तरः- सड़क 20 फीट, दक्षिणः- सड़क	(रुपये बारह लाख चौव हजार छः सौ इकहत्तर ए चौवन पैसे मात्र) तिथि 13/04/2023 तक तथा प्रयोज्य ब्याज एवं अन्य

"IMPORTANT"

whatsoever.

कैश क्रेडिट

(ओडीएपी)

कैश क्रेडिट

(खाता#

HDFC BANK

ऋण सुविधा का प्रकार तथा खाता सं. मौजा पंजरेह, पीएचः60, आराजी नंबर 11/1 मिन 47, पी-2, खसरा नंबर 06.04.2022 1. मेसर्स मोहिनी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) इसके निदेशकों: -

(खाता #	ए, काले राम चैंबर्स, पूर्वी गुरु अगद नगर, नई दिल्ली- 110092	तक/ सूचना तिथि
(खाता # 50200045479570)*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6 जून, 2023
कैश क्रेडिट (खाता #	1. मेसर्स एम एस इंटरनेशनल (कर्जदार) अपने भागीदारों: - श्री अखिलेश श्रीवास्तव श्री मुनीश श्रीवास्तव और श्री यश पाल के माध्यम से पता: - 7022	

श्री संचित पालीवाल और सुश्री मधु मिश्रा के माध्यम से, पताः - 304 और 306

50200041422860)* सावधि ऋण (जीईसीएल) (खाता #8112124)

> 4. श्री यश पाल (गारंटर एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री सदानंद पताः - बी-608, कात्यायनी अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर-8, सेक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली-110075

50200026314444)* 2. श्री मबश्शिर मसर्रत (गारंटर और बंधककर्ता) पत्र श्री मसर्रत अली पताः-

।. मेसर्स ओम जी ग्राफिक्स (कर्जदार) इसके मालिक श्री ओम प्रकाश के माध्यम

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-21 डी, फरीदाबाद, हरियाणा-121009

या अन्य विधि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करेंगे।

(i) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कारण बताना होगा कि जिसके लिए राहत की प्रार्थना की अलावा संपत्तियों तथा परिसंपत्तियों का विवरण प्रदर्शित करना।

(iv) आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट

हारा बिक्री प्रक्रिया से वसुली और ऐसी परिसंपत्तियों के ऊपर प्रतिभृति ब्याज को धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ रखे गए खाते में ऐसी बिक्री प्रक्रिया की राशि को जमा करने के उत्तरदायी

समन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण 81936275*

है, जिसमें असफल होने पर आवेदन की सुनवाई आपकी अनुपरिथति में कर दी जाएगी।

दिनांक : 29.06.2023, स्थान : दिल्ली

चूँकि आप लाभ के लिए जिस पते पर मूल रूप से निवास/व्यापार/व्यक्तिगत कार्य करते हैं उस पर भेजी गयी सूचना वह हमारे पास वापस नहीं की गयी अतः हम इस प्रकाशन के लिए बाध्य हो गये हैं। एतद्वारा आपको उपर्युक्त अधिनियम की धारा . 13(2) के तहत उपर्युक्वत दायित्व को उनकी सम्बद्ध तिथियों से ब्याज की अनुबन्ध दर सहित अन्य लागतों, प्रभारों आदि को इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर बैंक उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अथवा किसी अधिकार का उपयोग करेगा। साथ ही आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों को विक्रय, पट्टे कृते एचडीएफसी बैंक लि., अधिकृत प्राधिकारी

(नेहरू ग्राउंड), न्य टाउन, फरीदाबाद में स्थित